



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 ज्येष्ठ 1931 (श0)

(सं0 पटना 262)

पटना, बृहस्पतिवार, 11 जून 2009

मुख्य अभियंता (यां0) का कार्यालय
यांत्रिक उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

कार्यालय आदेश
30 सितम्बर 2008

सं0 844—जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, पटना के ज्ञापांक-171 दिनांक 17 जनवरी 2008 द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में श्री सुनील ठकुर तृतीय पुत्र स्व0 जगरनाथ ठकुर, ग्राम-भीखावन दयालचक, पोस्ट-वहपुरा, थाना-मनेर, जिला-पटना को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना के पत्र सं0-3/एम0/03/2001 का0-3385 दिनांक 20 जून 2001 में वर्णित निदेशानुसार अनुकम्पा के आधार पर अनुसेवक के रिक्त पद पर वेतनमान रु0 2550-55-2660-60-3200 में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत आदेश भत्ते के साथ पदभार ग्रहण की तिथि से औपबंधिक रूप से नियुक्त कर राष्ट्रीय उच्च पथ यांत्रिक प्रमंडल पथ निर्माण विभाग, नवादा में पदस्थापित किया जाता है।

2. उन्हें योगदान हेतु यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
3. योगदान करने के समय उन्हें शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. मृत सरकारी सेवक के आश्रितों के भरण-पोषण के उत्तरदायित्व की अवहेलना करने पर परिलब्धियों का आधार अंश परिवार के आश्रित को देय होगा अथवा नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा कारण पृच्छा प्राप्त कर सेवा समाप्त की जा सकती है।
5. इनके शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण-पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इनकी सेवा कारण पृच्छा प्राप्त कर समाप्त की जा सकती है।
6. श्री ठकुर के संबंध में दिनांक-01 सितम्बर 2005 से प्रभावी बिहार सरकारी कर्मचारी अंशदायी योजना-2005 लागू होगा।

7. विवाह में दहेज नहीं लेने-देने का शपथ पत्र देना होगा।

(ह0) अस्पष्ट,
मुख्य अभियंता (यां0)
यांत्रिक उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 262-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>